

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

अधिसूचना

संख्या: 11/नि 03-03/2025

पटना, दिनांक

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के "परन्तुक" के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त को विनिश्चित करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय परिचारी संवर्ग का गठन करते हुये निम्नांकित नियमावली बनाते हैं ।—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।—

- (क) यह नियमावली "बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।
- (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (ग) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।— इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरुद्ध कोई बात न हो —

- (i) "सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;
- (ii) "प्रशासी विभाग" से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;
- (iii) "विद्यालय" से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे ;
- (iv) "माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-10 तक की पढ़ाई होती है;

- (v) **“उच्च माध्यमिक विद्यालय”** से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय/ उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा-12 तक की पढ़ाई होती है;
- (vi) **“जिला परिषद्”** से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद् ;
- (vii) **“नगर निकाय”** से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था—नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत;
- (viii) **“संवर्ग”** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य विद्यालय परिचारी संवर्ग ;
- (ix) **“नियुक्ति प्राधिकार”** से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी;
- (x) **“संवर्ग नियंत्री प्राधिकार”** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार का शिक्षा विभाग;
- (xi) **“अनुशासनिक प्राधिकार”** से अभिप्रेत है, जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो;
- (xii) **“अपीलीयप्राधिकार”** से अभिप्रेत है, संबंधित प्रमण्डल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक;
- (xiii) **“विद्यालय परिचारी”** से अभिप्रेत है, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 एवं विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक- 21.08.2020 के प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्त विद्यालय परिचारी एवं इस नियमावली के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गैर शक्षणिक कार्य हेतु नियुक्त विद्यालय परिचारी;
- (xiv) **“विद्यालय सहायक”** से अभिप्रेत है, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 एवं विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक- 21.08.2020 के प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्त विद्यालय सहायक;

- (xv) "अनुकम्पा समिति" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन विद्यालय परिचारी के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ;
- (xvi) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;

3. संवर्ग की संरचना।—

(i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी।

क्र०सं०	पदनाम	पद का स्तर
01	विद्यालय परिचारी	मूल कोटि
02	विद्यालय लिपिक	प्रोन्नति का प्रथम स्तर

(ii) इस संवर्ग में विभिन्न पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

4. नियुक्ति की प्रक्रिया।—

- (i) इस संवर्ग में मूल कोटि के पद (विद्यालय परिचारी) पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर की जा सकेगी।
- (ii) मूल पद की रिक्तियों के विरुद्ध अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।
- (iii) सीधी भर्ती हेतु अर्हताएँ निम्नवत् होगी।—
- (क) भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का मूल निवासी हो।
- (ख) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ मैट्रिक अथवा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फौकानिया अथवा बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मध्यमा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
- (ग) न्यूनतम आयु सीमा 18वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कोटिवार समय-समय पर विनिश्चित की जाय। न्यूनतम आयु की गणना संबंधित वर्ष की पहली अगस्त के आधार पर होगी।

5. आरक्षण।—

इस संवर्ग में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

6. **परिवीक्षा अवधि ।—**

सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार अगले एक और वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मियों को सेवामुक्त कर सकेगा।

7. **प्रशिक्षण ।—**

इस संवर्ग के कर्मियों को संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

8. **सम्पुष्टि ।—**

परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने और निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पर नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा सेवा सम्पुष्टि की जा सकेगी।

9. **वरीयता ।—**

सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की वरीयता का निर्धारण जिला स्तर पर आयोग के मेधाक्रमानुसार किया जा सकेगा।

10. **स्थानान्तरण ।—**

यह पद सामान्यतः जिला के अन्दर स्थानान्तरणीय होगा। संबंधित कर्मियों के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा होना अथवा उनके विरुद्ध वित्तीय गबन का मामला संज्ञान में आने अथवा उनके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हो तो नियुक्ति प्राधिकार स्वयं अथवा संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की अनुशंसा पर संबंधित कर्मियों का विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित कर सकेंगे। विशेष परिस्थिति में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अन्य जिलों में भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

11. **अनुशासनिक कार्रवाई ।—**

11.1 इस संवर्ग के शिक्षकेत्तर कर्मियों अवचार या कदाचार के विभिन्न कृत्यों के लिए ऐसे अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किए जायेंगे।

11.2 विशेष रूप से, नियुक्ति प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में विद्यालय परिचारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए सक्षम होगा।—

- क. अपने कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन नहीं करना;
- ख. कार्य से अनाधिकृत अनुपस्थिति;
- ग. जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता;
- घ. विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना;
- ङ. वित्तीय अनियमितता के मामले;
- च. सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव;
- छ. किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना;
- ज. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन;

- झ. कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे;
- 11.3 समझा गया निलंबन ।— इस संवर्ग के विद्यालय परिचारी जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक/पुलिस/सिविल अभिरक्षा में रहा है, उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा।
- 11.4 अनुशासनिक प्राधिकार, इस संवर्ग के दोषी विद्यालय परिचारी पर निम्नलिखित दंड अधिरोपित कर सकेगा।

क. वृहद् दंड—

- i. बर्खास्तगी
- ii. अनिवार्य सेवानिवृत्ति
- iii. निचले पद पर पदावनति
- iv. कम वेतनमान में पदावनति
- v. संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना

ख. लघु दंड—

- i. निन्दन
- ii. निर्धारित विधि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक होगा
- iii. वेतन से कटौती के माध्यम से वित्तीय जुर्माना लगाना जो 15 दिनों से अधिक न हो
- iv. गैर-संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियों) को रोकना
- v. प्रोन्नति रोकना

- 11.5 **विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया ।—** अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय परिचारी के विरुद्ध "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण,

अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी।

12. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति ।—

सेवाकाल में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी की मृत्यु होने पर संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जिस जिले के विद्यालय में कार्यरत थे, उसी जिले में विद्यालय परिचारीके पद पर नियुक्ति के लिए उनके आश्रित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे। अनुकम्पा के आधार पर विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति तत्समय प्रवृत्त नीति के अनुसार की जायेगी और अपेक्षित योग्यता एवं रिक्ति के अधीन होगी।

13. अपील ।—

इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय परिचारीकी सेवाशर्त से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को होगी।

14. प्रकीर्ण ।—

- (i) शिक्षा विभाग के संकल्प सं0-1128 दिनांक-21.08.2020 द्वारा स्वीकृत विद्यालय परिचारी के 1129 पद इस नियमावली के तहत स्वीकृत समझे जाएँगे।
- (ii) शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 के आलोक में मरणशील घोषित राजकीय/राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ वर्गीय कर्मी (आदेशपाल) के पद रिक्ति के फलस्वरूप स्वतः "विद्यालय परिचारी" में परिवर्तित हो जाएँगे।
- (iii) शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21.08.2020 के आलोक में जिलों में अनुकम्पा के आधार पर नियोजित विद्यालय परिचारी इस नियमावली के तहत विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त समझे जाएँगे।

15. अवशिष्ट मामले ।—

इस नियमावली में जिन विषयों के लिये विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके लिये सरकार के प्रासंगिक संहिता/नियमवाली /संकल्प/अनुदेश में समकक्ष स्तर के कर्मियों के संदर्भ में विहित प्रावधान लागू होंगे।

16. कठिनाईयों का निराकरण ।—

इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में होनेवाली कठिनाईयों का निराकरण हेतु संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा विधि विभाग के परामर्श से समय-समय पर सामान्य या विशेष निदेश जारी किया जा सकेगा।

17. शिथिल करने की शक्ति ।—

जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों को सरकार द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

18. निर्वचन ।—

इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति ।—

(i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के नियोजन सम्बन्धी शिक्षा विभाग का संकल्प सं०-1128 दिनांक-21.08.2020 निरसित माना जाएगा। परन्तु इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत्त संकल्प के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी मानो वे सभी इस नियमावली के अधीन किये गए हों।

(ii) पूर्व के नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में निर्गत अधिसूचनाएँ, आदेश, परिपत्र,

पत्र आदि में निहित वैसे निदेश, जो इन नियमावली के प्रावधान के अनुकूल नहीं होंगे, वह स्वतः इस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप संशोधित समझे जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-11/नि 03-03/2025....., पटना, दिनांक

प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार/सभी प्रधान सचिव, बिहार/सभी सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग /सभी निदेशक, पंचायतीराज विभाग/ माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पंचायतीराज विभाग के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय)/सभी जिला पंचायतीराज पदाधिकारी /सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-11/नि 03-03/2025 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार का उपलब्ध करायी जाए।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-11/नि 03-03/2025 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि—आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।